



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 924) पटना, शुक्रवार, 14 अगस्त 2015

सं० ह0क0(13)गै0यो0(छात्रवृत्ति)—01 / 2015—3215
m | ksx foHkx

I dYi

7 अगस्त 2015

fo"K; %& dlnh; fMtkbUk dlnh jktlnuxj] iVuk ,oa iKMyLVj ,oa oL= if'k{k.k lg mRiknu dlnh[cjkjh] Hkxxyij ea foUkh; 0k"K 2015&16 %vi&y 2015% ls if'k{k.k.kfFkZ; k; dks Nk=qfr dh jkf'k ₹ 300@&ifr ekg lsc<kdj ₹ 800@& ifr ekg Lohqfr dsl xdk ea

हस्तकरघा बुनकरों को आधुनिक एवं बाजार माँग के अनुरूप वस्त्र तैयार करने हेतु बुनकरो को हस्तकरघा बुनाई, उत्कृष्ट वस्त्र बुनाई एवं डिजाइनिंग में छः छः माह का प्रशिक्षण निम्नांकित प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाता है। जिसके लिए उक्त दोनो प्रशिक्षण केन्द्र गैर योजनात्मक योजना (स्थाई) अन्तर्गत कार्यरत है।

00	if'k{k.k dlnz dk uke	if'k{k.k.kfFkZ; ka dh l d; k
1.	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना	18
2.	पॉलिस्टर एवं वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर	12
	dy&	30

उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में छः छः माह में कुल 60 प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षुओं को वर्तमान में ₹ 300/— (तीन सौ) प्रति माह के दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वर्तमान समय में बाजार मूल्य में काफी वृद्धि हो जाने के कारण ₹ 300/— (तीन सौ) मात्र प्रतिमाह की छात्रवृत्ति में वे दैनिक व्यवहार की चीजों का प्रयोग करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। छात्रवृत्ति की दर ₹ 300/— (तीन सौ) मात्र रहने के कारण प्रशिक्षण में भागीदारिता कम रही है, जिससे सरकार के कौशल विकास के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतएव महँगाई में वृद्धि को देखते हुए प्रशिक्षणार्थियों के छात्रवृत्ति में वृद्धि किया गया है।

2— राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना एवं पॉलिस्टर एवं वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2015—16 (अप्रैल 2015) से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि ₹ 300/—प्रति माह से बढ़ाकर ₹ 800/—प्रति माह स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3—प्रस्तावित राशि का व्यय गैर योजना मद से मुख्य शीर्ष—2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—103, हस्तकरघा उद्योग, मॉग सख्या—23, उप शीर्ष 0001 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड—N-2851001030001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष—3401, छात्रवृत्ति/वजीफा मद में उपबंधित राशि एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का उपबंध कराकर विकलनीय होगा।

vkns'k%— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 924-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>